

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 दसिंबर, 2023

तहिाड स्टोर

- तहिाड जेल स्टोर ने कैदियों द्वारा तैयार किये गए उत्पादों की पेशकश करने वाले एक नए आउटलेट के साथ अपना परचालन फरि से शुरू किया, जसे पहले [COVID-19 महामारी](#) के कारण रोक दिया गया था।
 - इस पहल का उद्देश्य कैदियों के लिये पुनर्वास के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिले।
- ये स्टोर कपड़े, कृत्रिम आभूषण, ब्रेड, बन, मोमबत्तियाँ, साबुन, टॉयलेट क्लीनर, फ्रैनीचर और कन्फेक्शनरी आइटम सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं।
- जेल में कैदियों को दुकान चलाने देने से पहले उनके आचरण, स्वास्थ्य और जेल में बतिए समय की अवधि जैसे पछिले रकिंग को ध्यान में रखा जाएगा।
- इस बिक्री से प्राप्त धनराश राजकोष में जाएगी और प्रत्येक कैदी को स्वीकृत वेतन के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

गोलडफशि

गोलडफशि, पालन की जाने वाली सबसे शुरुआती मछलियों में से एक है तथा कारप परविर की एक अपेक्षाकृत छोटी मछली है।

- इसे बन में छोड़ने से इनका आकार वृश्चिक हो सकता है, जिससे वे मूल समुद्री परविश के लिये आकर्षक व हानिकारक साबृति हो सकते हैं, साथ ही सुनम्य पारस्िथितिकी तंत्र को हानिप्रहूँचा सकते हैं।
 - यह शैवाल, जलीय पादप, अंडे एवं अकशेचुकी जीवों सहित लगभग कुछ भी और सब कुछ भोजन के रूप में ग्रहण करने में सक्षम है।
 - वे जल के ताप की एक वसितृत शृंखला का सामना कर सकते हैं तथा त्वरित यौन परपिक्वता प्राप्त कर एक मौसम में अनेक बार प्रजनन कर सकते हैं।
 - वन्य गोलडफशि भी वनिशकारी होती हैं क्योंकि वे शैवाल का सेवन करके तथा इसके विकास को प्रोत्साहित करने वाले पोषक तत्त्वों को कम करके हानिकारक शैवाल के पनपने में योगदान देती हैं।



वकिष्ठोभ

तरल पदारथ के बहने/प्रवाहति होने जैसी दैनिक घटनाओं में प्रायः होने वाला वकिष्ठोभ, पदारथ के गठन का एक गहन स्तर है जसे वैज्ञानिक अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं।

- वकिष्ठोभ, तरल पदारथ की एक जटलि गति है जो अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव, अप्रत्याशित विधिताओं और भौंवर जैसे चक्रीय, कुण्डलीनुमा (Swirling) पैटर्न के गठन की वशिष्टता है।
- द्रव जड़त्व (द्रव की गतिमान रहने की प्रवृत्तता) और श्यानता (गति-मिंदन बल) के बीच संतुलन यह नियंत्रित करता है कपिरवाह, लेमनियर प्रवाह (सुव्यवस्थित) है या अशांत (अत्यधिक अस्थरि)।
 - जब जड़त्व प्रभावी होती है तो वकिष्ठोभ उत्पन्न होता है।
- वकिष्ठोभ के अनुप्रयोग:
 - मौसम संबंधी मॉडल में अधिक स्टीक अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमानों के लिये वकिष्ठोभ अध्ययन लाभकारी है, जो आपदा तैयारियों के लिये आवश्यक है।
 - वकिष्ठोभ का अध्ययन करने से प्र्यावरण नीतियों को प्रभावित करने वाले वातावरण में प्रदूषकों के वकिष्ठेपण का आकलन करने में मदद मिलती है।

ऊर्जा दक्षता का जश्न: राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023

ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश प्रचारति करने एवं ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में राष्ट्र विभाग की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये प्रतिवर्ष 4 दसिंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।

- इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत [ऊर्जा दक्षता ब्यूरो](#) (BEE) द्वारा ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण को विनियमित करने तथा बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है जो कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार अधिदिशति है।
- वर्ष 2002 में स्थापित [ऊर्जा दक्षता ब्यूरो](#), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के नियमक और प्रचार कार्यों के साथ संरेख्यता होकर, नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को निपिपादित करने में विद्यमान संसाधनों व अवसंरचना को स्वीकार करता है, उसकी पहचान करता है और उनका उपयोग करता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-14-december,-2023>